

विज्ञापन

विज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञापन या सूचना देना। किसी वस्तु या सेवा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य है लोगों को वस्तु या सेवा की ओर आकर्षित करना।

विज्ञापन का उद्देश्य:-

1. उत्पादों की बिक्री करने के लिए विज्ञापन तैयार किए जाते हैं।
2. किसी कंपनी का उद्देश्य केवल उत्पाद का उत्पादन करना ही नहीं होता, उत्पाद की बिक्री करना और बिक्री बढ़ाना विज्ञापन का उद्देश्य है।
3. उत्पाद से लोगों को परिचित कराना, उस के प्रति जागृति उत्पन्न करना, उत्सुकता पैदा करना भी विज्ञापन का उद्देश्य है।

विज्ञापन के प्रकार:-

1. मौखिक विज्ञापन:- व्यक्तिगत रूप से प्रचार करना, रेडियो आदि के द्वारा प्रचार करना मौखिक विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं।
2. लिखित विज्ञापन :- पत्र-पत्रिकाओं, अखबारों आदि में लिखित विज्ञापन दिए जाते हैं। लिखित विज्ञापनों में स्लोगन, रंगों व डिजाइन का बहुत महत्त्व होता है।
3. दृश्य-श्रव्य विज्ञापन :- दूरदर्शन, चलचित्र पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन दृश्य-श्रव्य विज्ञापन होते हैं। ये विज्ञापन बहुत आकर्षक होते हैं।

(I)

एक बीमार को A(-ve) रक्त चाहिए। इससे संबंधित बीस शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करें।

रक्तदान



एमबीएस अस्पताल में एक रोगी को

A(-ve) रक्त की आवश्यकता है।

- रक्तदान करने वाले की आयु: 20 - 40 वर्ष
- उसका वजन कम से कम 50- 55 किलो होना चाहिए।
- रक्तदाता पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए।

यह एक जन सेवा है

किसी की जान बचाइये

आगे आइए

(II)

सूर्या कापी एवं पेन के लिए 20-25 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करें।

सूर्या काँपी एवं पेन



विद्यार्थियों की पहली पसंद
सूर्या कापी व पेन
क्यों कि

- उत्तम कागज
- उचित मूल्य
- किफायती दाम
- सभी आकार में उपलब्ध
- पेन से बस लिखते ही जाओ....

सभी स्टेशनरी की दुकानों पर उपलब्ध

(III)

नगर निगम का विज्ञापन लिखें - “जलही जीवन है”।

जल ही जीवन है



अत्यधिक गर्मी के कारण
पानी की कमी हो रही है
जल है तो जीवन है
जल है तो कल है
इस बात को ध्यान रखकर
पानी बचाएँ
सौजन्य से- नगर निगम, सिरसा

VASUNDHARA

(IV)

“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” विषयपर 20-25 शब्दों का एक विज्ञापन लिखें।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ



बेटी माँ दुर्गा, सरस्वती व लक्ष्मी है
उसे बचाओ और पढ़ाओ
आज पड़ेगी बेटी तो कल
सुधरेगा देश का भविष्य

VASUNDHARA

(V)

“योगस्वास्थ्य के लिए लाभकारी है” इस संबंध में 20-25 शब्दों का एकविज्ञापन बनाएं।

योग व स्वास्थ्य

स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ दिमाग रहता है
शारीरिक व मानसिक रूप से
स्वस्थ रहने के लिए
योग को अपनाएं।
ये एक स्वस्थ रहने की प्राचीन भारतीय पद्धति है।
सौजन्य से :- योग संस्थान, नयापुरा कोटा
अवसर :- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

